

AI के माध्यम से वधि-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन

यह एडिटोरियल 10/04/2023 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Directing AI for better and smarter legislation" लेख पर आधारित है। इसमें वधि-निरमाण, नीति-निरमाण और संसदीय गतिविधियों की दक्षता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में AI द्वारा प्रस्तुत संभावित लाभों और अवसरों की चर्चा की गई है।

संदर्भ

वभिन्न उद्योगों में प्रक्रियाओं को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या [आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस \(AI\)](#) का उपयोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में वधायी प्रक्रियाओं को संवृद्ध के लिये भी AI उपकरणों या साधनों (AI tools) के उपयोग में रुचि बढ़ी है। ये उपकरण वधि-निरमाताओं को डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने, प्रतारूपों एवं प्रवृत्तियों को चिह्नित करने और अधिक सूचना-संपन्न नरिणय (informed decisions) लेने में सहायता कर सकते हैं।

- हालाँकि वधायी प्रक्रियाओं में AI के उपयोग से संबद्ध नैतिक नहितार्थों के बारे में—वशिष रूप से पूर्वाग्रह और पारदर्शिता संबंधी मुद्दों के संबंध में, चर्चा भी प्रकट की गई है। इसके साथ ही, भारत में मौजूदा कानूनों (जो जटिल और अपारदर्शी हैं) से संबद्ध कई चुनौतियाँ भी हैं, जिससे AI के लिये प्रभावी कार्याकरण कठिन हो जाता है।
- इसलिये, वधायी प्रक्रियाओं में AI का उपयोग करने से जुड़े लाभों और संभावित हानियों पर सावधानीपूर्वक विचार करना अत्यंत आवश्यक है।

वधि-निरमाण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भूमिका निभा सकता है?

- **वधायी प्रक्रियाओं को संवृद्ध करना:**
 - AI उपकरण वधि-निरमाताओं के लिये प्रतारूपों तैयार करने, अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने, किसी भी वधियक के बारे में जानकारी प्राप्त करने, संक्षिप्त लेख तैयार करने, सदन के नियम वशिष के बारे में जानकारी प्रदान करने, वधायी प्रारूपण, संशोधन, हस्तक्षेप आदि में संसद सदस्यों की सहायता कर सकते हैं। यह वधायी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उन्हें अधिक कुशल बनाने में मदद कर सकता है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' ने वधियकों, संशोधनों और मौजूदा कानूनों के बीच अंतर का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिये एक AI उपकरण का उपयोग शुरू किया है।
- **अनुसंधान गुणवत्ता:**
 - AI डेटा की बड़ी मात्रा के विश्लेषण, प्रतारूपों एवं प्रवृत्तियों की पहचान और परिणामों को व्यापक तरीके से प्रस्तुत करने के माध्यम से गहन अनुसंधान में सहायता कर सकता है। यह वधि-निरमाताओं को विश्वसनीय डेटा एवं साक्ष्य के आधार पर सूचना-संपन्न नरिणय लेने में मदद कर सकता है।
- **नरिणयन में सहायता:**
 - AI वभिन्न कारकों का विश्लेषण करके और वभिन्न नीति विकल्पों के संभावित परिणामों के बारे में पूर्वानुमान व्यक्त कर संसद सदस्यों को नरिणयन में सहायता प्रदान कर सकता है। यह नरिणयन की परिशुद्धता में सुधार लाने और अनपेक्षित परिणामों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
- **नागरिकों की शिकायतों का विश्लेषण:**
 - पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत में संसद सदस्यों को विशाल आबादी वाले नरिवाचन क्षेत्रों का प्रबंधन करना होता है।
 - AI नागरिकों की शिकायतों और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर सकता है तथा उन मुद्दों एवं प्राथमिकताओं को चिन्हित कर सकता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
 - यह वधियों पर सार्वजनिक परामर्श और घोषणापत्र तैयार करने के लिये नागरिक मत को आमंत्रित करने में भी संसद सदस्यों की सहायता कर सकता है।
- **कानूनों के संभावित प्रभावों का अनुकरण करना:**
 - वधायी प्रक्रियाओं में AI का उपयोग किसी नीति के संभावित परिणामों को उजागर करने के लिये वभिन्न डेटासेट (जैसे कि जनगणना, घरेलू उपभोग, करदाताओं, वभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों, सार्वजनिक अवसरचना आदि पर डेटा) की मॉडलिंग में मदद कर सकता है।
 - यह उन कानूनों को चिन्हित करने में भी मदद कर सकता है जो वर्तमान परिस्थितियों में पुराने पड़ चुके हैं और जिनमें संशोधन की आवश्यकता

है।

- उदाहरण के लिये, कोवडि-19 महामारी के दौरान यह प्रकट हुआ कि 'महामारी रोग अधिनियम, 1897' (Epidemic Diseases Act, 1897) स्थिति को उपयुक्त रूप से संबोधित करने में वफिल है। इसने पुराने कानूनों पर पुनर्विचार करने और उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता को उजागर किया।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) के कई प्रावधान भी विवादास्पद और बेमानी हैं, जैसे कि अनुच्छेद 309 (आत्महत्या का प्रयास), जो अभी भी एक आपराधिक कृत्य बना हुआ है।
- AI ऐसे पुराने कानूनों की पहचान कर और अधिक प्रासंगिक कानूनों एवं नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर विधायी प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद कर सकता है।
 - आपराधिक विधान के ऐसे कई खंड हैं जो 100 वर्ष से पहले अधिनियमित किये गए और वर्तमान में शायद ही कोई प्रासंगिकता रखते हैं, जैसे कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867, जेल अधिनियम 1894 आदि।

विधायी प्रक्रियाओं में AI के उपयोग से संबद्ध प्रमुख चुत्तिएँ

■ पारदर्शिता की कमी:

- AI मॉडल अत्यधिक जटिल हो सकते हैं और यह समझना कठिन हो सकता है कि वे किस प्रकार नरिणय ले रहे हैं। पारदर्शिता की यह कमी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है, यदा विधि-नरिमाता और आम लोग विधायी नरिणयों के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ होंगे।

■ पूर्वाग्रह:

- AI मॉडल बस उतने ही वस्तुपरक या उद्देश्यपूर्ण होते हैं जतिने डेटा पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यदा AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये उपयोग किया जाने वाला डेटा पूर्वाग्रह रखता है या पक्षपातपूर्ण है तो मॉडल अपने नरिणयों में उस पूर्वाग्रह को दोहरा सकता है या उसे बढ़ा भी सकता है।
 - इससे भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे कानूनों का नरिमाण जो कुछ समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करें।

■ जवाबदेही:

- यदा विधायी नरिणय लेने में AI का उपयोग किया जाता है तो परिणामों के लिये किसी को भी जवाबदेह ठहराना कठिन सिद्ध हो सकता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिये एक चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि जवाबदेही प्रतनिधि शासन का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

■ साइबर सुरक्षा:

- विधायी प्रक्रियाओं में प्रायः संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना शामिल होती है। यदा इन प्रक्रियाओं में उपयोग की जाने वाली AI प्रणालियाँ उपयुक्त रूप से सुरक्षित नहीं हैं तो वे साइबर हमलों के प्रतसंवेदनशील हो सकती हैं और इस सूचना से समझौते की स्थिति बन सकती है।

■ नरिभरता:

- विधायी प्रक्रियाओं में AI पर अत्यधिक नरिभरता नरिणय लेने में मानवीय तत्त्व को कम कर सकती है और इससे उस विशेषज्ञता एवं वविक की हानि हो सकती है जो मानव अंतःक्रिया एवं वमिर्श से आती है।

वश्व में उठाए गए संबंधित कदम

■ नीदरलैंड की 'Speech2Write' प्रणाली:

- नीदरलैंड के 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' ने 'Speech2Write' प्रणाली को लागू किया है जो आवाज़ को लिखित शब्द या टेक्स्ट में परिवर्तित करता है तथा आवाज़ का लिखित रिपोर्ट में 'अनुवाद' भी करता है।
- Speech2Write में स्वचालित वाक् पहचान और स्वचालित संपादन क्षमताएँ संलग्न हैं जो पूरक शब्दों को हटा सकती हैं, व्याकरण संबंधी सुधार कर सकती हैं और संपादन नरिणयों का प्रस्ताव दे सकती हैं।

■ जापान का AI टूल:

- यह विधि-नरिमाताओं के लिये प्रतिक्रियाओं की तैयारी में सहायता करता है और संसदीय बहसों में प्रासंगिक मुख्य बातों के स्वतः चयन में भी मदद करता है।

■ ब्राज़ील का यूलिसिस:

- ब्राज़ील ने यूलिसिस (Ulysses) नामक AI प्रणाली विकसित किया है जो पारदर्शिता एवं नागरिक भागीदारी का समर्थन करता है।

■ भारत का दृष्टिकोण:

- भारत भी नवाचार अपना रहा है और संसदीय गतिविधियों को डिजिटल करने की दशिया में कार्यरत है। 'वन नेशन, वन एप्लीकेशन' (One Nation, One Application) और नेशनल ई-विधान (NeVA) पोर्टल इस दशिया में प्रमुख कदम हैं।

आगे की राह

■ विधियों और वनियमों को संहिताबद्ध करना:

- सरकार को व्यापक और सुलभ तरीके से विधियों एवं वनियमों को संहिताबद्ध करने के अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिये। यह AI-आधारित समाधानों के साथ कार्य कर सकने के लिये एक ठोस आधार प्रदान करेगा।

■ एक एकीकृत मंच विकसित करना:

- एक एकीकृत मंच विकसित किया जाना चाहिये जो सभी कानूनों, वनियमों और अधिसूचनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करे। यह मंच नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी अधिकारियों सहित सभी हतिधारकों के लिये सुलभ होना चाहिये।

■ सहकार्यता को प्रोत्साहित करना:

- विधायी कार्यों के लिये AI-आधारित समाधान सरकारी एजेंसियों, विधि विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों सहित

वभिन्न हतिधारकों के बीच सहकार्यता के माध्यम से विकसित किये जाने चाहिये।

■ **पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना:**

- AI-आधारित समाधानों को पारदर्शी, व्याख्या-योग्य और जवाबदेह बनाने के लिये डिज़ाइन किया जाना चाहिये। नागरिकों को यह समझने में सक्षम होना चाहिये कि AI किसी विशेष नरिणय या अनुशंसा तक कैसे पहुँचा।

■ **नागरिक-केंद्रित समाधानों पर ध्यान देना:**

- AI-आधारित समाधानों को नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये डिज़ाइन किया जाना चाहिये। समाधान उपयोगकर्ता के अनुकूल और सभी के लिये सुलभ होने चाहिये, जिनमें दवियांगजन या सीमति डिजिटल साक्षरता रखने वाले लोग भी शामिल हैं।

■ **वधियों को मशीन-उपभोज्य बनाना:**

- एक केंद्रीय वधि इंजन के साथ वधियों को मशीन-उपभोज्य (Machine-Consumable) बनाने की आवश्यकता है, जो सभी अधनियमों, वधियों के अधीनस्थ खंडों, राजपत्र, अनुपालनों और वनियमनों के लिये सत्य का एकल स्रोत बन सकता है।

○ **उदाहरण के लिये:**

- AI हमें बता सकता है कि कोई उद्यमी महाराष्ट्र में एक नरिमाण इकाई शुरू करना चाहता है तो कौन-से अधनियम और अनुपालन लागू होंगे।
- यदि कोई नागरिक कल्याणकारी योजनाओं के लिये पात्रता की जाँच करना चाहता है तो AI नागरिकों द्वारा प्रदान किये गए वविरण के आधार पर यह अनुशंसा कर सकता है कि कौन-सी योजनाएँ उसके अनुकूल हैं।

अभ्यास प्रश्न: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का वधियी प्रक्रिया एवं नरिणयन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और यह संसद सदस्यों एवं समग्र रूप से समाज के लिये कौन-सी चुनौतियाँ और अवसर पेश करता है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????????

प्रश्न 1. वकिस की वर्तमान स्थिति में कृत्रमि बुद्धमिता नमिनलखिति में से कसि कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (वर्ष 2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में वदियुत की खपत कम करना
2. सार्थक लघु कहानियाँ और गीतों की रचना
3. रोगों का नदिान
4. टेक्सट-से-स्पीच में परविरतन
5. वदियुत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

- Google अपने डीपमाइंड अधगिरहण से इंटरनेट ऑफ थगिस (IoT) एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग अपने डेटा केंद्रों में ऊर्जा की खपत को 30% तक कम करने के लिये कर रहा है। **अतः 1 सही है।**
- संगीत या संगीतकारों की सहायता के लिये एक उपकरण के रूप में AI का उपयोग काफी समय से चलन में है। 1990 के दशक में डेवडि बॉवी ने वर्बेसाइज़र को विकसित करने में मदद की, जसिने साहित्यिक स्रोत सामग्री ली और शब्दों के रूप में इस्तेमाल किये जा सकने वाले नए संयोजन बनाने के लिये शब्दों को रैंडम तरीके से पुनर्व्यवस्थिति किये। हालाँकि, जैसा कि AI प्रोग्राम्ड इकोसिस्टम में काम करता है और इसमें भावनाएँ नहीं होती हैं, इसलिये AI के लिये सार्थक लघु कथाएँ और गीत बनाना कठिन होगा। **अतः 2 सही नहीं है।**
- रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थगिस (IoMT) के साथ संयुक्त AI स्वास्थ्य देखभाल के लिये संभावित रूप से नया तंत्रिका तंत्र हो सकता है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिये समाधान प्रस्तुत करता है। कैंसर देखभाल में AI प्रौद्योगिकी का एकीकरण नदिान की सटीकता और गति में सुधार कर सकता है, नैदानिक नरिणय लेने में सहायता कर सकता है और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त कर सकता है। **अतः 3 सही है।**
- भाषण संश्लेषण मानव भाषण का कृत्रमि उत्पादन है। यह भाषा को मानवीय आवाज़ (या भाषण) में बदलने का एक तरीका है। उदाहरण के लिये, Google का सहायक, Amazon का Echo, Apple का सरिी, आदि। **अतः 4 सही है।**
- ऊर्जा कषेत्र में AI के उपयोग के संभावित मामलों में ऊर्जा प्रणाली मॉडलिंग और अप्रत्याशिता को कम करने एवं शक्ति संचालन व उपयोग में दक्षता बढ़ाने के लिये पूर्वानुमान शामिल हैं। हालाँकि, इसका उपयोग वदियुत ऊर्जा के संचरण के लिये नहीं किये जा सकता है। **अतः 5 सही नहीं है।**
- **अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।**

